



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 108 राँची, सोमवार, 16 माघ, 1939 (श०)  
5 फरवरी, 2018 (ई०)

---

#### उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय)

-----  
संकल्प

10 जनवरी, 2018

**विषय:-** कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत नवस्थापित महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति के संबंध में ।

**संख्या:-** 5/स्था० -21/2017-34-- झारखण्ड राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत लाने हेतु अनेक प्रयासों में एक प्रयास नए महाविद्यालयों की स्थापना से है, जिसके अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय एवं मॉडल महाविद्यालय की स्थापना की जानी है । राज्य सरकार झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु प्रयत्नशील है । कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत कुल छः (06) नये महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें एक (01) मॉडल महाविद्यालय एवं एक (01) महिला महाविद्यालय एवं चार (04) डिग्री कॉलेज खोलना है । मॉडल महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय, सरायकेला-खरसावाँ तथा डिग्री महाविद्यालय क्रमशः जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, मझगाँव एवं खरसावाँ में खोला जाना है ।

2. उक्त महाविद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू रूप से हो, इसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 6 जुलाई, 2017 की बैठक में की गई अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 में मद सं०-19 के रूप में दी गई स्वीकृति के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के लिए महाविद्यालयवार निम्नांकित विषयों, शिक्षकों के पदों का सृजन एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	पदनाम	कुल पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	महिला महाविद्यालय, सरायकेला- खरसावाँ	कला		प्राचार्य	01(एक)
2			हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
3			अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
4			इतिहास	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
5			राजनीतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
6			भूगोल	सह प्राध्यापक	01(एक)
7				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
8		वाणिज्य	वाणिज्य	सह प्राध्यापक	01(एक)
9				सहायक प्राध्यापक	02(दो)
10		व्यावसायिक शिक्षा	बी० सी० ए०	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
11			बैंकिंग एण्ड फाइनांसियल सविर्सेज	सह प्राध्यापक	01(एक)
12				सहायक प्राध्यापक	02(दो)
13		गैर-शैक्षणिक पद		लेखापाल	01(एक)
14				सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01(एक)
15				प्रयोगशाला सहायक	02(दो)
16				लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	02(दो)

17				भंडारपाल	01(एक)
18				चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत)	04(चार)
19	मॉडल महाविद्यालय, सरायकेला- खरसावाँ	कला		प्राचार्य	01(एक)
20			हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
21			अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
22			इतिहास	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
23			राजनीतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
24			भूगोल	सह प्राध्यापक	01(एक)
25				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
26		वाणिज्य	वाणिज्य	सह प्राध्यापक	01(एक)
27				सहायक प्राध्यापक	02(दो)
28		व्यावसायिक शिक्षा	बी० सी० ए०	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
29			ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड	सह प्राध्यापक	01(एक)
30			आई०टी०	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
31		गैर-शैक्षणिक पद		लेखापाल	01(एक)
32				सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01(एक)
33				प्रयोगशाला सहायक	02(दो)
34				लिपिक-सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर	02(दो)
35				भंडारपाल	01(एक)
36				चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत)	04(चार)
37	डिग्री महाविद्यालय,			प्राचार्य	01(एक)

## झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 5 फरवरी, 2018

38	जगन्नाथपुर	कला	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
39			अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
40			इतिहास	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
41			राजनीतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
42			अर्थशास्त्र	सह प्राध्यापक	01(एक)
43				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
44		वाणिज्य	वाणिज्य	सह प्राध्यापक	01(एक)
45				सहायक प्राध्यापक	02(दो)
46		विज्ञान	भौतिकी	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
47			रसायनशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
48			गणित	सह प्राध्यापक	01(एक)
49				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
50		गैर-शैक्षणिक पद	लेखापाल		01(एक)
51			सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष		01(एक)
52			प्रयोगशाला सहायक		02(दो)
53			लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर		02(दो)
54			भंडारपाल		01(एक)
55			चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत)		04(चार)
56	डिग्री महाविद्यालय, मनोहरपुर			प्राचार्य	01(एक)
57		कला	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
58			अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
59			इतिहास	सहायक प्राध्यापक	02(दो)

60			लोक प्रशासन	सह प्राध्यापक	01(एक)
61				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
62			भूगोल	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
63		विज्ञान	भौतिकी	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
64			रसायनशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
65			वनस्पति शास्त्र	सह प्राध्यापक	01(एक)
66				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
67			जन्तु विज्ञान	सह प्राध्यापक	01(एक)
68				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
69		गैर-शैक्षणिक पद	लेखापाल	01(एक)	
70			सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01(एक)	
71			प्रयोगशाला सहायक	05(पाँच)	
72			लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	02(दो)	
73			भंडारपाल	01(एक)	
74			चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत)	04(चार)	
75	डिग्री महाविद्यालय, मझगाँव			प्राचार्य	01(एक)
76		कला	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
77			अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
78			राजनीतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
79			मनोविज्ञान	सह प्राध्यापक	01(एक)
80				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
81			समाजशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)

82		विज्ञान	भौतिकी	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
83			रसायनशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
84			भुगर्भशास्त्र	सह प्राध्यापक	01(एक)
85				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
86		वाणिज्य	वाणिज्य	सह प्राध्यापक	01(एक)
87				सहायक प्राध्यापक	02(दो)
88		गैर-शैक्षणिक पद		लेखापाल	01(एक)
89				सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01(एक)
90				प्रयोगशाला सहायक	04(चार)
91				लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	02(दो)
92				भंडारपाल	01(एक)
93				चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत)	04(चार)
94	डिग्री महाविद्यालय, खरसावाँ			प्राचार्य	01(एक)
95		कला	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
96			अंग्रेजी	सह प्राध्यापक	01(एक)
97				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
98			इतिहास	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
99			लोक प्रशासन	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
100			मानवशास्त्र	सह प्राध्यापक	01(एक)
101				सहायक प्राध्यापक	01(एक)
102		विज्ञान	भौतिकी	सहायक प्राध्यापक	02(दो)

103			रसायनशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	02(दो)
104			भूगर्भशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01(एक)
105		वाणिज्य	वाणिज्य	सह प्राध्यापक	01(एक)
106				सहायक प्राध्यापक	02(दो)
107		गैर-शैक्षणिक पद		लेखापाल	01(एक)
108				सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01(एक)
109				प्रयोगशाला सहायक	04(चार)
110				लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	02(दो)
111				भंडारपाल	01(एक)
112				चतुर्थ वर्गीय कर्मी (बाह्य स्रोत)	04(चार)

3. प्राचार्य पद पर नियुक्त होने तक तत्काल विश्वविद्यालय द्वारा वरीय शिक्षक को रखा जायेगा । बाद में सीधी नियुक्ति, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर किया जायेगा ।
4. सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा किया जायेगा ।
5. प्राचार्य/शिक्षकों का वेतनमान तत्कालीन मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प सं०-1188 दिनांक 20 नवम्बर, 2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे देय होगा ।
6. तृतीय वर्ग की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा की जायेगी तथा वित्त विभागीय संकल्प सं०-660/वि. दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे अंतिम रूपेण प्रभावी होगा ।
7. चतुर्थ वर्ग की सेवा बाह्य स्रोत से प्राप्त की जायेगी तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिया जायेगा ।

8. बाह्य स्रोत के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे, अपितु बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मों की संख्या समझी जायेगी ।
9. महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु तत्काल प्रत्येक विषय में एक शिक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-4569/वि० दिनांक 5 जुलाई, 2002 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दो वर्षों के लिए की जायेगी । शेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2017-18 में अध्याचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी । तत्पश्चात् संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्याचना वर्ष 2018-19 में झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अजय कुमार सिंह,**  
सरकार के सचिव ।

-----